

प्रेस विज्ञप्ति

मेधा डेयरी द्वारा घी के 20 एम.एल. एवं 40 एम.एल. पैक लॉच किया गया

दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को दिवाली एवं छठ पूजा के शुभअवसर पर मेधा डेरी, होटवार कार्यालय में घी के 20 ml और 40 ml के पैक लॉच किए गए | 20 एम.एल. घी पैक का उपभोक्ता मूल्य 10/- रुपए एवं 40 एम.एल. घी पैक का उपभोक्ता मूल्य 20/- रुपए निर्धारित किया गया है | यह उत्पाद मेधा डेरी के समस्त मिल्क बूथ एवं मेधा डेरी से सम्बद्ध दुकानों पर उपलब्ध होगा | इस पैक का मुख्य उद्देश्य घी के उपयोग को सुविधाजनक रूप से किफ़ायती बनाना है ताकि घी का उपयोग एवं लाभ माध्यम एवं निम्न आय वाले उपभोगता भी उठा सके साथ ही इसका इस्तेमाल धार्मिक कर्म कांडों एवं हमारे घरों में पूजा-पाठ, विद्यार्थी , हॉस्टल में रहने वाले महिला एवं पुरुष ,होटल एवं रेस्टोरेन्ट इत्यादि में आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं ।

इस अवसर पर श्री सुधीर कुमार सिंह ,प्रबंध निदेशक, जे.एम.एफ. , श्री पवन कुमार मारवाह, महा प्रबन्धक, जे.एम.एफ. मेधा के वितरक बंधू , प्रेस एवं मीडिया के साथी एवं अन्य उपस्थित थे |

मेधा डेयरी, झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की एक इकाई है, जो 'मेधा' ब्रांड के नाम से झारखंड राज्य के अलावा निकटवर्ती राज्यों में भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति करती है । जे एम एफ झारखंड के दुग्ध उत्पादकों / ग्रामीण किसानों की एकमात्र सहकारी संस्था है | राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लगभग 20,000 किसान इस संस्था से जुड़े हैं तथा उनके द्वारा उत्पादित दूध प्रति दिन सुबह और शाम एकत्रित कर मेधा डेयरी के ISO: 22000-2005 प्रमाणित अत्याधुनिक प्लांट में प्रोसेस किया जाता है | आपके शहर में उपलब्ध दूध एवं दूध उत्पाद से सम्बंधित विभिन्न ब्रांडो में केवल "मेधा" ही एक ऐसी संस्था है जो आपके अपने राज्य झारखण्ड से दूध एकत्रित करती है तथा इसका लाभ सीधे तौर पर झारखंड के स्थानीय किसानों / दुग्ध उत्पादकों को जाता है और राज्य के सुदूर इलाकों के ग्रामीणों की आजीविका का साधन बनते हुए उनके आर्थिक विकास में सहयोगी होता है ।
